

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 मार्च 2014—फाल्गुन 19, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 1490-66-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 मार्च, 2014 को
महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१४

[दिनांक १० मार्च, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, में दिनांक १० मार्च, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१४ है।

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रु. ५,१६,७४,८२,०५,००० का दिया जाना।

विनियोग.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियाँ, जिनका कुल योग रूपये (इक्यावन हजार छ: सौ चौहत्तर करोड़ बयासी लाख पाँच हजार) होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी।

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१)	(२)	(३)		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा	निम्नलिखित से अनधिक राशियाँ	योग
संख्यांक		द्वारा अनुदत्त	पर भारित	
		रूपये	रूपये	रूपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	२९,३८,०७,८९,०००
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	३९,५६,१०,०६,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	२,१८,४८,२८,०००	१०,९०,७६,०००
		पूंजी	२३,७४,८२,०००	०
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	११,७३,१९,०००	१०,६१,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	१८,३१,२४,९१,०००	४४,२४,०००
		पूंजी	३९,१८,०५,०००	०

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
०४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय		
राजस्व	१२,२७,१५,०००	२,०१,०००
पूँजी	४०,०२,०००	०
०५. जैल		
राजस्व	९१,९१,३०,०००	२०,०००
		९१,९१,५०,०००
०६. वित्त		
राजस्व	१९,२१,९७,३०,०००	५,९१,३०,०००
पूँजी	६८,३२,०१,०००	०
०७. वाणिज्यिक कर		
राजस्व	१०,१६,२४,१०,०००	८,६०,०००
		१०,१६,३२,७०,०००
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन		
राजस्व	४,९६,५६,३७,०००	२,६५,६०,०००
पूँजी	८,६४,००,०००	०
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय		
राजस्व	२६,५५,५०,०००	४०,०००
पूँजी	८०,०१,०००	०
१०. वन		
राजस्व	८,६७,३३,५७,०००	३०,२८,००,०००
पूँजी	३२,००,००,०००	०
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार		
राजस्व	२,४६,६०,०६,०००	२,८२,०००
पूँजी	१,६६,६८,२१,०००	४,००,०००
१२. ऊर्जा		
राजस्व	१४,८१,४९,५३,०००	६८,२०,००,०००
पूँजी	१४,३८,५५,२२,०००	०
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
राजस्व	६,२७,६३,६०,०००	८,००,०००
		६,२७,७१,६०,०००
१४. पशुपालन		
राजस्व	२,७३,०५,७७,०००	१,३२,०००
पूँजी	६,२८,००,०००	०
		२,७३,०७,०९,०००
		६,२८,००,०००

(१)	(२)	(३)		
	रुपये	रुपये	रुपये	
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व पूँजी	६,९०,९४,६०,००० १२,६६,००,०००	० ०	६,९०,९४,६०,००० १२,६६,००,०००
१६. मछली पालन	राजस्व पूँजी	२७,६८,७७,००० १३,९९,०००	१,२०,००० ०	२७,६९,९७,००० १३,९९,०००
१७. सहकारिता	राजस्व पूँजी	१,४६,५९,५२,००० ९८,३६,६४,०००	६०,००० ०	१,४६,६०,१२,००० ९८,३६,६४,०००
१८. श्रम	राजस्व	५८,४५,४१,०००	८०,०००	५८,४६,२१,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व पूँजी	१५,९३,५३,०३,००० ३०,०६,००,०००	२४,४०,००० ०	१५,९३,७७,४३,००० ३०,०६,००,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व पूँजी	१,९५,१३,८०,००० २,६४,७६,३१,०००	४०,००,००० ०	१,९५,५३,८०,००० २,६४,७६,३१,०००
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व पूँजी	६८,७०,४३,००० २४,०५,२३,०००	४०,००० १२,००,०००	६८,७०,८३,००० २४,१७,२३,०००
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व पूँजी	१,४४,५५,४४,००० ३,३०,३०,०००	० ०	१,४४,५५,४४,००० ३,३०,३०,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व पूँजी	३,४९,०३,२४,००० ६,०१,३५,६५,०००	४,००,००० ४०,००,०००	३,४९,०७,२४,००० ६,०१,७५,६५,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	राजस्व पूँजी	४,१०,६३,०१,००० ६,५३,०४,४०,०००	८०,००,००० १४,४०,००,०००	४,११,४३,०१,००० ६,६७,४४,४०,०००

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
२५. खनिज साधन			
	राजस्व १४,७६,८४,००० पूँजी ४,००,०००	१,६०,०२,००,००० ०	१,७४,७८,८४,००० ४,००,०००
२६. संस्कृति			
	राजस्व ५४,३८,४९,००० पूँजी ४६,०८,०००	० ०	५४,३८,४९,००० ४६,०८,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व २५,७७,८३,७२,००० पूँजी २५,२८,३२,०००	१,१६,००० ०	२५,७७,८४,८८,००० २५,२८,३२,०००
२८. राज्य विधान मंडल			
	राजस्व २६,८६,०२,०००	१६,२६,०००	२७,०२,२८,०००
२९. विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व ५,२३,९४,७१,००० पूँजी २०,००,०००	३५,४९,६७,००० ०	५,५९,४४,३८,००० २०,००,०००
३०. ग्रामीण विकास			
	राजस्व २,७८,८२,८४,००० पूँजी ५,८८,६२,००,०००	२,६०,००० ०	२,७८,८५,६४,००० ५,८८,६२,००,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व १,०४,०३,८८,०००	०	१,०४,०३,८८,०००
३२. जनसंपर्क			
	राजस्व ९३,२८,२३,०००	०	९३,२८,२३,०००
३३. आदिम जाति कल्याण			
	राजस्व ६,६९,४४,७५,०००	६,००,०००	६,६९,५०,७५,०००
३४. सामाजिक न्याय			
	राजस्व ८९,५९,१४,०००	१,२०,०००	८९,६०,३४,०००
३५. पुनर्वास			
	राजस्व २८,८५,०००	२०,०००	२९,०५,०००
३६. परिवहन			
	राजस्व ५०,६६,४९,००० पूँजी ३,४०,००,०००	१,६०,००० ०	५०,६८,०९,००० ३,४०,००,०००

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
३७. पर्यटन			
	राजस्व ३२,४२,४५,०००	०	३२,४२,४५,०००
	पूँजी ३२,४०,०९,०००	०	३२,४०,०९,०००
३८. आयुष			
	राजस्व १,८४,०४,१४,०००	४,००,०००	१,८४,०८,१४,०००
	पूँजी ८,१४,००,०००	०	८,१४,००,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व १५,६१,९४,२२,०००	६४,०००	१५,६१,९४,८६,०००
	पूँजी २३,७६,००,०००	०	२३,७६,००,०००
४०. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट			
	राजस्व ४,७१,६०,०००	३२,०००	४,७१,९२,०००
	पूँजी ४७,२४,८०,०००	०	४७,२४,८०,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			
	राजस्व २२,३१,७३,११,०००	०	२२,३१,७३,११,०००
	पूँजी ११,१२,९२,९६,०००	६,००,०००	११,१२,९८,९६,०००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य— सड़कें और पुल			
	पूँजी २,०८,३५,२०,०००	०	२,०८,३५,२०,०००
४३. खेल और युवक कल्याण			
	राजस्व ३३,७७,४२,०००	०	३३,७७,४२,०००
	पूँजी ६,८०,०९,०००	०	६,८०,०९,०००
४४. उच्च शिक्षा			
	राजस्व ४,८३,६२,९९,०००	२०,८०,०००	४,८३,८३,७९,०००
	पूँजी १६,००,४२,०००	०	१६,००,४२,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	राजस्व ५३,३३,००,०००	०	५३,३३,००,०००
	पूँजी २,२४,०६,६३,०००	४,००,०००	२,२४,१०,६३,०००
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी			
	राजस्व १०,२८,८०,०००	०	१०,२८,८०,०००
	पूँजी १,९०,००,०००	०	१,९०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
	रुपये	रुपये	रुपये	
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
	राजस्व पूँजी	१,८४,९२,६१,००० १७,३६,००,०००	० ०	१,८४,९२,६१,००० १७,३६,००,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास				
	राजस्व पूँजी	११,४१,९६,००० ५,२०,५३,९२,०००	० ४,००,०००	११,४१,९६,००० ५,२०,५३,९२,०००
४९. अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जाति कल्याण				
	राजस्व	३८,१२,५६,०००	१,०००	३८,१२,५७,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
	राजस्व	१,६५,९३,१३,०००	२,४०,०००	१,६५,९५,५३,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
	राजस्व	३९,२१,६६,०००	१२,०००	३९,२१,७८,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
	राजस्व पूँजी	११,७२,१७,०७,००० १७,७८,००,०००	० ०	११,७२,१७,०७,००० १७,७८,००,०००
५३. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
	राजस्व पूँजी	१,०६,२०,०४,००० ८,००,०००	० ०	१,०६,२०,०४,००० ८,००,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				
	राजस्व	४५,४०,०१,०००	०	४५,४०,०१,०००
५५. महिला एवं बाल विकास				
	राजस्व पूँजी	९,१७,६८,४१,००० १,११,३१,८५,०००	६,००,००० ०	९,१७,७४,४१,००० १,११,३१,८५,०००

(१)	(२)	(३)		
	रुपये	रुपये	रुपये	
५६. ग्रामोद्योग				
	राजस्व	७६,०२,२१,०००	०	७६,०२,२१,०००
	पूंजी	२,६५,८०,०००	०	२,६५,८०,०००
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	१,६५,६६,६३,०००	०	१,६५,६६,६३,०००
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१९,९९,१३,२३,०००	०	१९,९९,१३,२३,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
५९. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	१२,७६,००,०००	०	१२,७६,००,०००
६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.	राजस्व	७,३९,२०,०००	०	७,३९,२०,०००
	पूंजी	८५,४४,०९,०००	०	८५,४४,०९,०००
६१. बुन्देलखण्ड ऐकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	२७,४२,४१,०००	०	२७,४२,४१,०००
	पूंजी	१,२६,५७,६३,०००	०	१,२६,५७,६३,०००
६२. पंचायत	राजस्व	६८,४५,४७,०००	७२,०००	६८,४६,१९,०००
६३. अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	२७,२८,४९,०००	०	२७,२८,४९,०००
६४. अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	१४,३९,७०,२८,०००	०	१४,३९,७०,२८,०००
	पूंजी	९,२५,९४,६७,०००	०	९,२५,९४,६७,०००
६५. विमानन	राजस्व	८,६०,५७,०००	०	८,६०,५७,०००
	पूंजी	२,०००	०	२,०००

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व ३,०२,९७,८२,०००	८,०००	३,०२,९७,९०,०००
	पूंजी १,५४,०१,०००	०	१,५४,०१,०००
६७. लोक निर्माण कार्य—भवन			
	राजस्व १,८५,८३,६५,०००	२०,००,०००	१,८६,०३,६५,०००
	पूंजी ६८,७७,६५,०००	०	६८,७७,६५,०००
६८. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व १८,४०,२४,०००	०	१८,४०,२४,०००
६९. सूचना प्रौद्योगिकी			
	राजस्व ५८,३१,५०,०००	०	५८,३१,५०,०००
	पूंजी १३,७६,००,०००	०	१३,७६,००,०००
७०. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	राजस्व १,२०,०४,०००	०	१,२०,०४,०००
७१. जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)			
	राजस्व २,२०,०६,०००	०	२,२०,०६,०००
७२. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास			
	राजस्व ३४,२०,६२,०००	०	३४,२०,६२,०००
	पूंजी १,५२,०३,०००	०	१,५२,०३,०००
७३. चिकित्सा शिक्षा			
	राजस्व १,९३,७४,९२,०००	४२,००,०००	१,९४,१६,९२,०००
	पूंजी १६,३०,४२,०००	०	१६,३०,४२,०००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व ४२,५६,४५,०५,०००	०	४२,५६,४५,०५,०००
	पूंजी २०,००,०००	०	२०,००,०००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व २१,७३,७७,३५,०००	१२,०२,००,०००	२२,६५,७९,३५,०००
	पूंजी १०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
७६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
	राजस्व २५,४०,७५,०००	०	२५,४०,७५,०००
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व ९,४८,२५,९९,००० पूँजी ५,००,००,०००	२४,००,००० ०	९,४८,४९,९९,००० ५,००,००,०००
७८. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व ५६,००,००,०००	०	५६,००,००,०००
योग { राजस्व ३,६४,९२,८२,८५,००० पूँजी ७८,६३,४२,०१,०००	३३,४७,३७,१३,०००	३९,७१,२०,०६,०००	३,९८,४०,१९,९८,००० १,१८,३४,६२,०७,०००
वृहद-योग :	४,४३,५६,२४,८६,०००	७३,१८,५७,१९,०००	५,१६,७४,८२,०५,०००

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 1491-66-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2014.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 10th March, 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th March, 2014]

An Act to authorise for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2014-2015.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2014. Short title.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Fifty one thousand six hundred seventy four crores eighty two lakhs five thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2014-2015 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of Rs. 5,16,74,82,05,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2014-2015.
3. The sums authorised to be withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) Number	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund		
.	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Rs.	Rs.	Rs.	
	Revenue	0	29,38,07,89,000	29,38,07,89,000	
.	Charged Appropriation-Public Debt.	Capital	0	39,56,10,06,000	39,56,10,06,000
01.	General Administration & Lok Seva Prabandhan	Revenue	2,18,48,28,000	10,90,76,000	2,29,39,04,000
		Capital	23,74,82,000	0	23,74,82,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	11,73,19,000	10,61,000	11,83,80,000
03.	Police	Revenue	18,31,24,91000	44,24,000	18,31,69,15,000
		Capital	39,18,05,000	0	39,18,05,000

(1)	(2)		(3)
		Rs.	Rs.
04.	Other expenditure pertaining to Home Department		
	Revenue	12,27,15,000	2,01,000
	Capital	40,02,000	0
05.	Jail		
	Revenue	91,91,30,000	20,000
06.	Finance		
	Revenue	19,21,97,30,000	5,91,30,000
	Capital	68,32,01,000	0
07.	Commercial Tax		
	Revenue	10,16,24,10,000	8,60,000
08.	Land Revenue and District Administration		
	Revenue	4,96,56,37,000	2,65,60,000
	Capital	8,64,00,000	0
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department		
	Revenue	26,55,50,000	40,000
	Capital	80,01,000	0
10.	Forest		
	Revenue	8,67,33,57,000	30,28,00,000
	Capital	32,00,00,000	0
11.	Commerce Industry and Employment		
	Revenue	2,46,60,06,000	2,82,000
	Capital	1,66,68,21,000	4,00,000
12.	Energy		
	Revenue	14,81,49,53,000	68,20,00,000
	Capital	14,38,55,22,000	0
13.	Former Welfare and Agriculture Development		
	Revenue	6,27,63,60,000	8,00,000
14.	Animal Husbandry		
	Revenue	2,73,05,77,000	1,32,000
	Capital	6,28,00,000	0
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan		
	Revenue	6,90,94,60,000	0
	Capital	12,66,00,000	0

(1)	(2)		(3)
		Rs.	Rs.
16. Fisheries			
	Revenue	27,68,77,000	1,20,000
	Capital	13,99,000	0
17. Co-operation			
	Revenue	1,46,59,52,000	60,000
	Capital	98,36,64,000	0
18. Labour			
	Revenue	58,45,41,000	80,000
19. Public Health and Family Welfare			
	Revenue	15,93,53,03,000	24,40,000
	Capital	30,06,00,000	0
20. Public Health Engineering			
	Revenue	1,95,13,80,000	40,00,000
	Capital	2,64,76,31,000	0
21. Housing and Environment			
	Revenue	68,70,43,000	40,000
	Capital	24,05,23,000	12,00,000
22. Urban Administration and Development-Urban Bodies			
	Revenue	1,44,55,44,000	0
	Capital	3,30,30,000	0
23. Water Resources Department			
	Revenue	3,49,03,24,000	4,00,000
	Capital	6,01,35,65,000	40,00,000
24. Public Works—Roads and Bridges			
	Revenue	4,10,63,01,000	80,00,000
	Capital	6,53,04,40,000	14,40,00,000
25. Mineral Resources			
	Revenue	14,76,84,000	1,60,02,00,000
	Capital	4,00,000	0
26. Culture			
	Revenue	54,38,47,000	0
	Capital	46,08,000	0
27. School Education (Primary Education)			
	Revenue	25,77,83,72,000	1,16,000
	Capital	25,28,32,000	0
28. State Legislature			
	Revenue	26,86,02,000	16,26,000
			27,02,28,000

(1)	(2)		(3)
		Rs.	Rs.
29. Law and Legislative Affairs	Revenue	5,23,94,71,000	35,49,67,000
	Capital	20,00,000	0
30. Rural Development	Revenue	2,78,82,84,000	2,80,000
	Capital	5,88,62,00,000	0
31. Planning Economics and Statistics	Revenue	1,04,03,88,000	0
32. Public Relations	Revenue	93,28,23,000	0
33. Tribal Welfare	Revenue	6,69,44,75,000	6,00,000
34. Social Justice	Revenue	89,59,14,000	1,20,000
35. Rehabilitation	Revenue	28,85,000	20,000
36. Transport	Revenue	50,66,49,000	1,60,000
	Capital	3,40,00,000	0
37. Tourism	Revenue	32,42,45,000	0
	Capital	32,40,01,000	0
38. Ayoush	Revenue	1,84,04,14,000	4,00,000
	Capital	8,14,00,000	0
39. Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	15,61,94,22,000	64,000
	Capital	23,76,00,000	0
40. Expenditure pertaining to Water Resources Department-Command Area Development	Revenue	4,71,60,000	32,000
	Capital	47,24,80,000	0
41. Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	22,31,73,11,000	0
	Capital	11,12,92,96,000	6,00,000

(1)	(2)		(3)
		Rs.	Rs.
42. Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	2,08,35,20,000	0 2,08,35,20,000
43. Sports and Youth Welfare	Revenue	33,77,42,000	0 33,77,42,000
	Capital	6,80,01,000	0 6,80,01,000
44. Higher Education	Revenue	4,83,62,99,000	20,80,000 4,83,83,79,000
	Capital	16,00,42,000	0 16,00,42,000
45. Minor Irrigation Works	Revenue	53,33,00,000	0 53,33,00,000
	Capital	2,24,06,63,000	4,00,000 2,24,10,63,000
46. Science and Technology	Revenue	10,28,80,000	0 10,28,80,000
	Capital	1,90,00,000	0 1,90,00,000
47. Technical Education and Skill Development	Revenue	1,84,92,61,000	0 1,84,92,61,000
	Capital	17,36,00,000	0 17,36,00,000
48. Narmada Valley Development	Revenue	11,41,96,000	0 11,41,96,000
	Capital	5,20,53,92,000	4,00,000 5,20,57,92,000
49. Scheduled Caste Welfare & Vimuktta, Ghumakkad Evam Ardha Ghumakkad Caste Welfare.	Revenue	38,12,56,000	1,000 38,12,57,000
50. Horticulture and Food Processing	Revenue	1,65,93,13,000	2,40,000 1,65,95,53,000
51. Religious Trusts and Endowments	Revenue	39,21,66,000	12,000 39,21,78,000
52. Financial assistance to Tribal Area Sub-Plan Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	11,72,17,07,000	0 11,72,17,07,000
	Capital	17,78,00,000	0 17,78,00,000

(1)	(2)		(3)
		Rs.	Rs.
53.	Financial assistance to Urban Bodies under Schedule Castes Sub Plan		
	Revenue	1,06,20,04,000	0
	Capital	8,00,000	0
54.	Agricultural Research and Education	Revenue	45,40,01,000
55.	Women and Child Development	Revenue	9,17,68,41,000
	Capital	1,11,31,85,000	6,00,000
56.	Rural Industry	Revenue	76,02,21,000
	Capital	2,65,80,000	0
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department	Capital	1,65,66,63,000
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	19,99,13,23,000
	Capital	1,00,00,000	0
59.	Externally aided Projects pertaining to Rural Development Department	Revenue	12,76,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	7,39,20,000
	Capital	85,44,09,000	0
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhan package	Revenue	27,42,41,000
	Capital	1,26,57,63,000	0
62.	Panchayat	Revenue	68,45,47,000
63.	Minority Welfare	Revenue	27,28,49,000
		72,000	68,46,19,000
		0	27,28,49,000

(1)	(2)		(3)
		Rs.	Rs.
64. Scheduled Castes Sub Plan			
	Revenue	14,39,70,28,000	0 14,39,70,28,000
	Capital	9,25,94,67,000	0 9,25,94,67,000
65. Aviation			
	Revenue	8,60,57,000	0 8,60,57,000
	Capital	2,000	0 2,000
66. Welfare of Backward Classes			
	Revenue	3,02,97,82,000	8,000 3,02,97,90,000
	Capital	1,54,01,000	0 1,54,01,000
67. Public Works-Buildings			
	Revenue	1,85,83,65,000	20,00,000 1,86,03,65,000
	Capital	68,77,65,000	0 68,77,65,000
68. Financial assistance to Tribal Area Sub-Plan-Urban Bodies			
	Revenue	18,40,24,000	0 18,40,24,000
69. Information Technology			
	Revenue	58,31,50,000	0 58,31,50,000
	Capital	13,76,00,000	0 13,76,00,000
70. Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department			
	Revenue	1,20,04,000	0 1,20,04,000
71. Biodiversity & Biotechnology			
	Revenue	2,20,06,000	0 2,20,06,000
72. Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation			
	Revenue	34,20,62,000	0 34,20,62,000
	Capital	1,52,03,000	0 1,52,03,000
73. Medical Education Department			
	Revenue	1,93,74,92,000	42,00,000 1,94,16,92,000
	Capital	16,30,42,000	0 16,30,42,000
74. Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	42,56,45,05,000	0 42,56,45,05,000
	Capital	20,00,000	0 20,00,000
75. Financial assistance to Urban Bodies			
	Revenue	21,73,77,35,000	92,02,00,000 22,65,79,35,000
	Capital	10,00,00,000	0 10,00,00,000

(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
76. New and Renewable Energy Sources		
Revenue	25,40,75,000	0
Capital		25,40,75,000
77. Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)		
Revenue	9,48,25,99,000	24,00,000
Capital	5,00,00,000	0
		9,48,49,99,000
		5,00,00,000
78. Expenditure pertaining to Shinmasti, 2016		
Revenue	56,00,00,000	0
		56,00,00,000
Total Revenue ..	3,64,92,82,85,000	33,47,37,13,000
Total Capital ..	78,63,42,01,000	39,71,20,06,000
Grand Total ..	4,43,56,24,86,000	73,18,57,19,000
		3,98,40,19,98,000
		1,18,34,62,07,000
		5,16,74,82,05,000